

Vipul Limited

Vipul TechSquare Golf-Course Road, Sector-43 Gurgaon - 122 009 Tel: 91-124-406 5500 Fax: 91-124-406 1000 E-mail : info@vipulgroup.in www.vipulgroup.in

Ref. No. VIPUL/SEC/FY2023-24/2186

August 14, 2023

The Secretary
BSE Limited, (Equity Scrip Code: 511726)
Corporate Relationship Department,
At: 1ST Floor, New Trading Ring, Rotunda
Building,PhirozeJeejeebhoy Towers, Dalal
Street, Fort, Mumbai-400001

The Manager (Listing)
National Stock Exchange of India Limited,
(Equity Scrip Code: VIPULLTD)
Exchange Plaza, BandraKurla Complex,
Bandra, Mumbai-400051

Sub: Newspaper Advertisement in connection with the 32ND Annual General Meeting (AGM) of the Company

Dear Sir(s),

Pursuant to Regulation 30 & 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are forwarding herewith copies of Newspaper clippings regarding giving Public Notice to the Members intimating that the 32ND AGM of the Company will be held on Saturday, September 30, 2023 at 12:30 P.M. through Video Conferencing/Other Audio Visual Means ('VC/OAVM'), published on Saturday, August 12, 2023 in "Business Standard", in English language and "Business Standard", in Hindi language.

You are requested to take the above information on record and bring the same to the notice of all concerned.

Thanking you
Yours faithfully
For **Vipul Limited**

(Sunil Kumar) Company Secretary A-38859

Encl: As above

Isluer No. 156 to Inspecific IT 151, 18LL, 15LL OHSR at various places, 4. WSS to Aloor and Kodakara uts. Construction of for dia Intake well cum Fump house, 5. RWPM from koodapuzba Intake well cum Laying, and Commissioning RWPM from Intake well to WTP and Road restoration, 7. Construction of 11 LL OHSR 8. CWPM from 100 MLD WTP to 5LL OHSR and 4LL OHSR at odamkunnu. 9. Construction of 6. LL OHSR 10. Laying, among main to Villagan tank at Villagan road in Adat Pt.

Seki EKI ENERGY SERVICES LIMITED

CIN: L74200MP2011PLC025904 • BSE Scrip Code - EKI I 543284 Registered Address: Plot 48, Scheme 78 Part-2, Vijay Nagar, Indore-452 010, M.P., India

Corporate Address: 903, B-1, 9th Floor, NRK Business Park, Scheme 54 PU4, Indore-452 010, M.P., India, Phone: (+91) 731 42 89 086 E-mail: business@enkingint.org, Website: www.enkingint.org

Notice to the Shareholders of 02nd Extra-Ordinary General Meeting (EGM) for the Financial Year 2023-24 Notice is hereby given that the 02nd Extraordinary General Meeting ("EGM") for the financial year 2023-2024 of the Company will be held on Wednesday, September 06, 2023 at 05:00 P.M. (IST), through two-way Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM") to transact the business as set out in the Notice of EGM. In compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act') read with General Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020, General Circular No 21/2021 dated December 14, 2021 and General Circular No. 2/2022 dated May 05, 2022 and Circular No. 11/2022 dated December 28, 2022 and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (collectively

presence of the Members of the Company at a common venue. In compliance with the relevant circulars, the Notice of the EGM for the financial year 2023-24, will be sent in due course only through electronic mode to those Members, whose email addresses are registered with Company / Depository Participant(s). The Notice convening the EGM for the financial year 2023-24 will also be made available on the Company's website at www.enkingint.org, website of the Stock Exchange, i.e., BSE Limited at www.bseindia.com and website of the CDSL at www.evotingindia.com. Members can attend and participate in the EGM through VC/OAVM facility only. The instructions for joining the FGM and the detailed procedures for e-voting will be provided in the Notice of the EGM. Members attending the meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the guorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

referred to as "relevant circulars"), and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI LODR"), the EGM

of the Company will be held through VC/OAVM Facility, without physical

The Company will be providing to its members the remote e-voting facility ("remote e-voting") to cast their votes on all resolutions set out in the Notice of the EGM. Additionally, the Company is providing the facility of voting through e-voting system during the EGM ("e-voting"). Detailed procedure for remote e-voting / e-voting will be provided in the Notice of the EGM. Members who have not registered their email addresses are requested to refer to the Notice of the EGM for the process to be followed for obtaining the User ID and password for casting the vote through remote e-voting.

In order to receive the Notice, Members are requested to register/update their email addresses with the Company

For EKI Energy Services Limited

Place: Indore Date: 11.08.2023 Manish Kumar Dabkara







Corporate Identity Number: L27101WB2001PLC138341 Registered Office: Turner Morrison Building, 6, Lyons Range, 1st Floor, Kolkata - 700001 Phone: +91-33-2231 0055 / +91-33-2231 0056

E-mail: info.steels@manaksiasteels.com, Website: www.manaksiasteels.com

NOTICE TO THE SHAREHOLDERS REGARDING 22ND ANNUAL GENERAL MEETING

- Notice is hereby given to the members that the 22nd (Twenty Second) Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held through Video Conferencing ("VC") /Other Audio Visual Means ("OAVM") on Thursday, 21st September, 2023 at 03:00 P.M. (IST), in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Ministry of Corporate Affairs ("MCA") Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 5,2020, Circular No. 22/2020 dated June 15, 2020, Circular No. 33/2020 dated September 28, 2020 and subsequent circulars issued in this regard, the latest being Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022 and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023 (collectively referred to as "Circulars"), and all other relevant circulars issued from time to time, to transact the business(es) set out in the notice calling AGM. Members will be able to attend the AGM through VC or OAVM. Members participating through VC or OAVM shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.
- In compliance with the relevant circulars, the Notice of the AGM and the Annual Report for the FY 2022-23 will be sent electronically to all the Members of the Company whose email addresses are registered with the Company/Registrar & Transfer Agents (RTA)/Depository Participants. The aforesaid documents will also be available on the website of the Company at www.manaksiasteels.com and on the website of stock exchanges where the shares of the Company are listed i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively.
- As per the MCA and SEBI Circulars, no physical copies of the Notice of AGM and Annual Report will be sent to any Member. Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM facility only. The instructions for joining the AGM are provided in the Notice of AGM. Accordingly, please note that no provision has been made to attend and participate in the AGM of the Company in person.

Manner of registering/updating email addresses:

- Members holding shares in physical form, who have not registered/updated their email id with the Company, are requested to register/update by writing to Link Intime India Pvt. Ltd. (RTA) at kolkata@linkintime.co.in or to the Company at infomsl@manaksiasteels.com
- b) Members holding shares in dematerialised form, who have not registered/updated their email id with Depository Participants are requested to register/update the same with the Depository Participants with whom they are maintaining their demat accounts

Manner of casting vote(s) through e-voting:

The Company is providing remote e-voting facility to all its Members to cast their votes on all resolutions set out in the Notice of the AGM. Additionally, the Company is providing the facility of voting through e-voting system during the AGM. Detailed procedure for remote evoting/e-voting is provided in the Notice of AGM.

Book Closure:

Place: Kolkata

Date : 11.08.2023

The Register of Members & Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, the 15th September, 2023 to Thursday, the 21st September, 2023 (both days inclusive) for the purpose of 22nd AGM of the Company.

- All the Members holding shares in physical or electronic mode are requested to carefully read all the notes set out in the notice of AGM and in particular, instructions for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting or through e- voting during the AGM.
- In case of any queries as regards to the registration process of email address, the shareholders may contact the RTA of the Company at kolkta@linkintime.co.in or the Company at infomsl@manaksiasteels.com or may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-Voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on 022-4886 7000 and 022-2499 7000 send a request to Ms. Pallavi Mhatre, Manager at evoting@nsdl.co.in

By ORDER OF THE BOARD For Manaksia Steels Limited

Ajay Sharma **Company Secretary**

WEBFIL LIMITED

Regd. Office: "YULE HOUSE", 8, Dr. Rajendra Prasad Sarani, Kolkata - 700001 Phone: +91 (33) 2242 8210/8550/1988, 2248 4671, 2243 1555; FAX: +91 (33) 2242 1335 E-mail: webfil@webfilindia.com; Website: www.webfilindia.com CIN: L36900WB1979SGC032046

Extract of the Statement of Unaudited Standalone Financial Results for the quarter ended 30th June, 2023

					(Rs. in lakhs)
SI. No.	Particulars	Quarter ended 30.06.2023 (Unaudited)	Quarter ended 31.03.2023 (Audited)	Quarter ended 30.06.2022 (Unaudited)	Previous Year ended 31.03.2023 (Audited)
1.	Total Income	703.53	1,625.04	762.45	4,349.49
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	11.25	138.28	20.42	273.74
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	11.25	138.28	20.42	273.74
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	6.95	78.27	154.42	188.73
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	6.95	76.31	154.42	186.77
6.	Paid-up Equity Share Capital of Rs.10 each	853.25	853.25	853.25	853.25
7.	Other Equity (excluding Revaluation Reserves) as shown in the Audited Balance sheet)	ı	_	_	449.91
8.	Earnings Per Equity Share of face value Rs.10 (EPS)				
	1. Basic (Rs.): 2. Diluted (Rs.):	0.08 0.08	0.92 0.92	0.18 0.18	2.21 2.21

- The above is an extract of the detailed format of the Unaudited Standalone Financial Results for the quarter ended 30th June, 2023, filed with the Calcutta Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended. The full format of the Unaudited Standalone Financial Results for the quarter ended 30th June, 2023 is available on the Company's website (www.webfilindia.com) and on the website of The Calcutta Stock Exchange limited (www.cse-india.com).
- The above results have been reviewed by the Audit Committee and were taken on record by the Board of Directors of the Company at their meetings held on 11th August, 2023

For and on behalf of WEBFIL LIMITED

SUJIT CHAKRAVORTI Place: Kolkata Date: 11th August, 2023 (DIRECTOR) DIN: 00066344



Multi Commodity Exchange of India Limited

Exchange Square, CTS No. 255, Suren Road, Chakala, Andheri (East), Mumbai – 400 093. CIN: L51909MH2002PLC135594, E-mail: info@mcxindia.com, www.mcxindia.com

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to expulsion of LFS Broking Private Limited by the National Stock Exchange of India Limited (NSEIL), the LFS Broking Private Limited stands expelled from the membership at Multi Commodity Exchange of India Limited (Exchange) in terms of - Circular No. F. No. 1/26/SE/91 dated August 12, 1991, issued by Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), Government of India, with effect from August 08, 2023. Details of the Expelled Member are as follows:

Member Name	Membership ID	SEBI Registration Number	Registered & Correspondence office address
LFS Broking Private Limited (PAN: AACCL1007D)	56350	INZ000101238	Registered Address: Office no. 311/75, 3rd Floor, Shrinath Plaza, B-Wing, F.C. Road, Shivaji Nagar, Bhamburda, Pune - 411005, Maharashtra. Correspondence Address: Office No.08, Second Floor, Prabhadevi Industrial Estate, 408 Veer Savarkar Marg, Prabhadevi, Mumbai – 400025, Maharashtra.

The constituent(s) of the above mentioned Expelled Member are advised to lodge their claims, if any, (in the prescribed claim form) within 90 days (specified period) from the date of this notification, failing which, it shall be deemed that no claims exist against the above mentioned Expelled Member and such claims, if any, shall be deemed to have been waived. The claims filed against above Expelled Member shall be dealt in accordance with the Rules, Byelaws and Business Rules, procedures of the Exchange and applicable provisions of Exchange's Investor Protection Fund Trust.

The maximum compensation limit per investor, if found due and payable out of Investor Protection Fund under the Rules, Byelaws and Business Rules of the Exchange is Rs.25 lakhs per client.

The constituent(s) may forward the duly filled claim form along with relevant documents as stated therein to Defaulters' Section of the Exchange at Multi Commodity Exchange of India Limited, Exchange Square, CTS 255, Suren Road, Chakala, Andheri (East), Mumbai - 400093 or email at default@mcxindia.com. Claim form for filing claims can be downloaded from the Exchange website: www.mcxindia.com/Investor Services.

For Multi Commodity Exchange of India Ltd.

Place: Mumbai. **Authorised Signatory** Date: August 11, 2023



PFIZER LIMITED

CIN: L24231MH1950PLC008311

The Capital, 1802/1901, Plot No.C-70, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai 400 051 Tel: +91 22 6693 2000 Fax: +91 22 2654 0274 Email ID: contactus.india@pfizer.com Website: www.pfizerltd.co.in

Extract of Statement of Unaudited Financial Results for the Quarter ended 30 June 2023

(₹ in crore except earnings per share)

	Particulars	Quarter ended 30 June 2023 Unaudited	Year to date figures for previous year ended 31 March 2023 Audited	Corresponding 3 months ended 30 June 2022 Unaudited
1	Total Income	564.82	2,525.81	610.92
2	Net Profit for the quarter/year (before Tax,	304.02	2,020.01	010.32
3	Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit for the quarter/year before tax	125.75	791.01	179.72
	(after Exceptional and/or Extraordinary items)	125.75	824.01	43.39
4	Net Profit for the quarter/year after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	93.53	623.93	32.55
5	Total Comprehensive Income for the quarter/year [Comprising Profit for the period(after tax) and Other Comprehensive			
	Income (after tax)]	92.71	627.54	32.36
6	Equity Share Capital	45.75	45.75	45.75
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of			
	the previous year	-	3,161.55	-
8	Earnings per share (of ₹10/- each) (not annualised)*			
	Basic:	20.44*	136.38	7.11*
	Diluted:	20.44*	136.38	7.11*

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchanges websites viz. www.bseindia.com and www.nseindia.com. The same is also available on the Company's website at www.pfizerltd.co.in

> For Pfizer Limited Meenakshi Nevatia **Managing Director**



VIPUL LIMITED

Regd. Office: Unit No. 201, C-50, Malviya Nagar, Delhi-110017 Corp. Office: Vipul TechSquare, Golf Course Road, Sector-43, Gurgaon-122009 CIN No.: L65923DL2002PLC167607, Phone No.: 0124-4065500, Website: www.vipulgroup.in

INFORMATION REGARDING 32NDANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING/ OTHER AUDIO-VISUAL MEANS

Notice is hereby given that the 32nd Annual General Meeting ("AGM") of Vipul Limited ("the Company") will be held on Saturday, September 30, 2023 at 12.30 P.M. through Video Conferencing / Other Audio Visual Means, in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ('the Act') and Rules made thereunder, read with the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") Circulars No. 14/2020 dated April 8, 2020, No. 17/2020 dated April 13, 2020, No. 20/2020 dated May 5, 2020, No. 02/2021 dated January 13, 2021, No. 21/2021 dated December 14, 2021, No. 21/2024 and May 5, 2022 and No. 10/2022 and No. 10/2022 dated December 28 2021 issued by the Ministry of Corporate Affairs (collectively referred to as 'MCA Circulars'), the Company is convening the 32ND Annual General Meetin. (AGM) through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM), without the physical presence of the Members at a common venue. Further Securities and Exchange Board of India ('SEBI'), vide its Circulars No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021, SEBI/HO/DHS/P/CIR/2022/0063 dated May 13, 2022 and SEBI/HO/CRD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023 ('SEBI Circulars') and other applicable circulars issued in this regard, along with any other applicable Circulars issued b MCA and/or SEBI in this regard, to transact the businesses set out in the Notice of the AGM, without the physical presence of the Members at a common venue The deemed venue of the Annual General Meeting of the Company is the registered office of the Company i.e. Unit No. 201, C-50, Malviya Nagar, New Delh

compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ('Act'), the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('SEB Listing Regulations') and MCA Circulars, the 32nd AGM of the Company is being conducted through VC/OAVM Facility, which does not require physical presence of members at a common venue. The Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM only. Members attending the meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

embers may further note that in pursuance of above stated circulars and also in furtherance of Go-Green initiative of the government, the Notice of the 32n AGM and Annual Report for the financial year 2022-23, will be sent through electronic mode only to those members whose email addresses are registered wit

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014 and Regulation 44 of the Listing Regulations, Members will be provided with the facility to cast their votes on all resolutions set forth in the Notice of the AGM using electror voting system ("remote e-voting"), provided by NSDL and the business may be transacted through such voting.

The remote e-voting period commences on Tuesday, September 26, 2023, 9:00 a.m. and ends on Friday, September 29, 2023, 5:00 p.m. The remote e-votin shall not be allowed beyond the said date and time. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change subsequently. At the end of the remote e-voting period, the facility shall forthwith be blocked.

The facility for voting through electronic voting system shall be made available during the AGM and only those Members, who will be present in the AGM through VC/OAVM facility and have not cast their vote on the Resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system in the AGM. The Members who have cast their vote by remote e-voting may also attend the AGM, but shall not be entitled to cast their

vote again.
The voting rights of Members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid up equity share capital of the Company as on Saturday. September 23, 2023 ("cut of date"). Any person, who is a Member of the Company as on the cut-off date is eligible to cast vote on all resolutions set forth in th

Notice of AGM using remote e-voting or voting at the AGM.

A person who has acquired shares and become a member of the Company after the dispatch of Notice of AGM and holds shares as of the cut-off date, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in . However, if the person is already registered with NSDL for remote e-voting, the the existing user id and password can be used. If they have forgotten their password, they can reset their password by using 'Forgot User Details/ Pasoption available on www.evoting.nsdl.com or contact NSDL at toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30. n case of any queries relating to remote e-voting facility, please refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for Shareholder

vailable at the Downloads section of www.evoting.nsdl.com or contact NSDL at the toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or e-mail a case of any grievance(s) in connection with voting by electronic means, the Members may contact to Mr. Shrawan Mangla, T-34, II nd Floor, Okhla Industria

vrea, Phase-II, New Delhi-110020, Email Id: ïnfo@masserv.com, Tel No.: 011-26387281-83 or send an e-mail to the Company Secretary a URTHER NOTICE is hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure

equirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Transfer Books of the Company shall remain closed from Saturday, September 23, 2023 to aturday, September 30, 2023 (both days inclusive) for the purpose of AGM. All Members are requested to register their e-mail address with the Company. In support of green initiative, the Company will send you the Annual Reports ar other relevant information and documents at your registered e-mail address. Registering e-mail address will help in better communication between Compar and you as an esteemed stakeholder, and further reduce cost of communication and most importantly save environment by reducing use of paper. Kindly ser

your details at secretarial@vipulgroup.in or info@masserv.com for registration of e-mail address. your octains at secretarial@ytpugroup.in or info@masserv.com for registared their email addresses with the Company can cast their vote through remote working or through the e-voting system during the meeting in the manner as provided in the notice of AGM.

Members may note that the detailed procedure for remote e-voting / e-voting during the AGM is also mentioned in the notice of AGM. The Notice of the AGM an the Annual Report will also be made available on the Company's website i.e. www.vipulgroup.in, vebsites of the Stock Exchanges where the shares of the Company are listed, i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited, at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the

website of National Securities Depository Limited at www.evoting.nsdl.com in due course of time.
The above information is being issued for the information and benefit of all the members of the Company and is in compliance with the MCA Circulars and the

SEBI Circulars issued from time to time. For Vipul Limited

Raymond

Registered Office: Plot No.156/H No.2, Village Zadgaon, Ratnagiri 415 612 (Maharashtra).

CIN: L17117MH1925PLC001208

Email: corp.secretarial@raymond.in; Website: www.raymond.in

Tel: 02352-232514, Fax: 02352-232513; Corporate Office Tel: 022-40349999, Fax: 022-24939036

EXTRACT OF CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE 2023

(₹ in lakhs, unless otherwise stated)

Sunil Kuma

Company Secretary

_		C	d	Year ended	
Sr. No.	Particulars	30.06.2023	31.03.2023	30.06.2022	31.03.2023
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Income from Operations	1,77,146	2,15,018	1,72,814	8,21,472
2	Net Profit for the period before tax and exceptional items	1,10,289	26,642	11,845	84,447
3	Net Profit for the period before tax after exceptional items	1,09,348	17,339	11,845	73,732
4	Net Profit for the period after tax	1,06,674	19,648	8,193	53,696
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising				
	profit for the period after tax and other comprehensive				
	income after tax) net of non-controlling interests	1,09,668	19,537	9,008	55,979
6	Reserves as shown in the audited Balance sheet	-	-	-	2,83,240
7	Equity Share Capital	6,657	6,657	6,657	6,657
	(Face Value - ₹ 10/- per share)				
8	Earnings per share (of ₹ 10/- each)				
	(not annualised except for the year ended 31 March 2023):				
	(a) Basic	160.01	29.19	12.15	79.45
	(b) Diluted	160.01	29.19	12.15	79.45

Place: Gurugram

Date: August 11, 2023

1. The Statement of Raymond Limited (the 'Company' / 'Holding Company') and its subsidiaries (referred to as 'the Group') together with Associates and Joint Ventures, have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles of applicable Indian Accounting Standards ('Ind AS') notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (as amended), as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 ('the Act'), and other accounting principles generally accepted in India and is in compliance with the presentation and disclosure requirements of Regulation 33 and Regulation 52 read with Regulation 63 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended) ('Listing Regulations') read with SEBI Circular SEBI/HO/DDHS/P/CIR/2021/613 dated 10 August 2021 and guidelines issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI).

Financial results of Raymond Limited (Standalone information)

(₹ in lakhs, unless otherwise stated)

	G	Year ended		
Particulars	30.06.2023	31.03.2023	30.06.2022	31.03.2023
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
Income from Operation (Turnover) Profit before tax Profit after tax	1,22,215 5,769 4,319	1,51,584 11,847 15,359	.,	-, , ,

The above is an extract of the detailed format of the Standalone and Consolidated Financial results for the quarter ended June, 2023 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

The full format of standalone and consolidated results of the Company for the quarter ended June, 2023 are available to the investors at the websites www.raymond.in, www.bseindia.com and www.nseindia.com

The above results were reviewed and recommended by the Audit Committee on 10 August, 2023 and approved by the Board of Directors on 11 August, 2023 respectively. There are no qualifications in the review report issued for the quarter ended 30 June, 2023

11 August. 2023

Gautam Hari Singhania Chairman & Managing Director

■™ JAYKAY ENTERPRISES LIMITED

CIN : L55101UP1961PLC001187 REGISTERED OFFICE : KAMLA TOWER KANPUR UP 208001

Tel:-+91 512 2371478-81 Fax: +91 512 2390854 E-mail:cs@jaykayenterprises.com, Website:- www.jaykayenterprises.com EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2023

				(₹ in Lakhs)
			CONSOLIDATE	D
S.	Particulars	Quarter ended Year E		Year Ended
No.	Particulars	30-Jun-23	30-Jun-22	31-March-23
		Unaudited Unaudited		Audited
1	Total Income from Operations	695.30	988.20	4,695.53
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)	74.04	0.72	1,105.54
3	Net Profit / (Loss) for the period beforetax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	74.04	0.72	1,105.54
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	74.04	0.72	826.72
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income(after tax)]	-220.42	-161.44	2,126.66
6	Equity share capital (Face value of ₹ 1 per share)	584.58	475.92	524.68
7	Other equity (Reserves excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year			13,097.59
8	Earning per share (of ₹ 1 each) (for continuing and discontinued operations) - Not Annualized			
	Basic- In Rupees	0.08	-0.03	1.43
	Diluted-In Rupees	0.08	-0.03	1.31
I.	The key standalone financial information of the Company is as under:-			(₹ in Lakhs)
			STANDALONE	

		STANDALONE		
s.	Particulars	Quarter ended Ye		Year Ended
No.	Particulars	30-Jun-23 30-Jun-22 31-N	31-March-23	
		Unaudited	Unaudited	Audited
а	Revenue from operations	29.70	0.00	29.70
b	Profit/(loss) for the period/year before tax #	21.44	-32.55	781.33
С	Profit/(loss) for the period/year after tax #	21.44	-32.55	778.74

The above is an extract of the detailed format of financial results for quarter ended June 30, 2023, filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Reguirements) Regulations, 2015. The full format of financial results (Consolidated & Standalone) for the quarter ended June 30, 2023, are available on the Company's website i.e. www.jaykayenterprises.com and also on the Bombay Stock Exchange website www.bseindia.com

The above financial results for the quarter ended June 30, 2023, have been reviewed by the Audit Committee and

approved by the Board of Directors on August 10, 2023. The financial results for the quarter ended June 30, 2023 have been, reviewed by P.L.Tandon & Company, Chartered Accountants, the Statutory Auditors of the Compan For and behalf of the Board of Directors of

Jaykay Enterprises Limited Abhishek Singhania Chairman & Managing Director DIN:00087844

August 11, 2023

Place: New Delhi Date: 10-08-2023



SIMBHAOLI SUGARS LIMITED

(Formerly known as 'Simbhaoli Spirits Limited') Regd. Office: Simbhaoli Dist. Hapur (U.P.) - 245207

CIN-L15122UP2011PLC044210 E-mail: info@simbhaolisugars.com Website: www.simbhaolisugars.com

EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2023

					(Rs. lacs)
			Quarter ended		Year ended
S.	Particulars	June 30, 2023	March 31, 2023	June 30, 2022	March 31, 2023
No.	i articulars	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
1	Total income from operations (net)	26,825.34	37,107.14	30,272.71	123,273.40
2	Net Profit/ (loss) for the period before Tax and				
	exceptional items	(1,153.89)	2,387.99	(1,636.22)	(3,067.46)
3	Net Profit/ (loss) for the period before Tax and after				
	exceptional items	(1,153.89)	2,387.99	(1,636.22)	(3,067.46)
4	Net Profit/ (loss) for the period after Tax and exceptional items	(1,122.76)	2,373.33	(1,638.33)	(3,084.30)
5	Total Comprehensive Income for the period [comprising				
	net profit/(loss) for the period (after tax) and Other				
	Comprehensive Income (after tax)]	(1,122.76)	2,208.15	(1,638.33)	(3,249.48)
6	Paid up equity share capital (face value Rs.10/- each)	4,127.90	4,127.90	4,127.90	4,127.90
7	Other Equity				(16,018.98)
8	- EPS before exceptional item	(2.72)	5.75	(3.97)	(7.47)
I	- EPS after exceptional item	(2.72)	5.75	(3.97)	(7.47)

Notes :

The above is an extract of the detailed format of financial results for the guarter ended June 30, 2023 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of financial results for the quarter ended June 30, 2023 are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com and www.nseindia.co and the Company's website (www.simbhaolisugars.com).

For the Quarter ended June 30, 2023 and in previous years, due to higher raw material cost i.e. sugarcane costs (SAP) fixed by State

ernment and relatively lower sales realization of finished sugar on adverse demand & supply scenario, and other eternal factors the Holding Company had continuously incurred huge cash losses resulting in complete erosion of its net worth, rendering the Company unable to meet payment obligations towards its lenders as well as to the sugarcane farmers in terms of their respective agreements and understanding. All the production units of the Holding Company are operational continue to operate at sub-optimur levels on year-on-year basis while consistent efforts are being made for improvement in operational efficiency viz. improvement if sugar recovery, reduction in overheads and reduction in other operational and administrative costs etc. However, due to lack of required working capital and no capex being undertaken towards augmentation and modernization, the operations of distillery ar sugar plants are still adversely impacted. Further, the availability of required sugarcane for optimal utilization of production capaciti is still a challenge on account of aforesaid reasons. In distillery segment, non-installation of incineration boilers and other equipment to meet the stringent requirement of Pollution Control Board is still resulting in curtailed production levels. Further, the expecte accrued benefits under the Sugar Industries Promotion policy 2004 has not been yet disbursed by the State Gove is sub-judice.

Recognizing the status of the sugar industry, the state and central governments have taken a number of measures in past to improve the financial health of sugar mills and to support the liquidation of sugarcane arrears by grant of soft loan, fixing minimum suppo price of sugar, and Ethanol blending program with petrol coupled with long term tendering and fixing remunerative selling price of ethanol etc. All these measures specifically ethanol blending programme, have resulted in revival of the sugar industry but the Holding Company is continuing to suffer and incurring losses on account of non-availability of sufficient sugar cane commensurations. to its crushing capacities, on account of delayed payment of sugar cane prices due to adverse liquidity position, which have resulte in the diversion of sugar cane in the command areas to the other adjoining sugar mills. Benefits under soft loan could also not be availed, since credit facility accounts with its lenders were having NPA categorisation.

Due to default in repayment of credit facilities, lenders to the Holding Company have initiated recovery proceedings at various forum including filing of applications before the Hon'ble National Company Law Tribunal (NCLT) under Section 7 of the Insolvency an Bankruptcy Code, 2016 and also filing of recovery proceedings against personal guarantors (Promoters) before NCLT under section 95 of Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 in addition to approaching Debt Recovery Tribunals in Delhi as well as in Lucknow Uttar Pradesh. One of the lenders had declared the Holding Company and Guarantors to the credit facility, as Willful Defaulters, suc impugned order of lender was Set Aside by Hon'ble Punjab and Haryana High court at Chandigarh, while another lender had started the proceedings to examine the Willful Default and a personal hearing was also granted, basis Holding Company's representation the decision is kept in Abeyance. One lender has categorized Holding company with Fraud tag and same is challenged before Dell High Court. While one of the lenders had initiated recovery proceedings under section 138 of the Negotiable Instrument Act, wherei non-bailable warrants were issued against the erstwhile directors and officials of the Holding Company, which is being conteste at the appropriate forum. Against a criminal complaint filed by one of the lenders, the Enforcement Directorate had passed a Attachment Order on certain assets of the Holding Company to the extent of Rs. 109.80 Crore, against which the Holding Company has preferred an appeal before with the appropriate authority and the matter is sub-judice. The Enforcement Directorate had proceed to take the Constructive Possession of the Attached Property on which an Interim Stay has been granted by the Hon'ble Appellat

The Holding Company is continuing to pursue a comprehensive debt resolution proposal with all the lenders. Commercial lenders have shown their inclination to accept the debt resolution proposal and accepted the Earnest Money offered thereof, while Deb realignment proposal was submitted to other lenders against which the Holding company had initiated the repayments, pending approval of respective lenders. Revised and improved debt resolution proposal given to commercial lenders on bilateral basis is under consideration by the commercial lenders, while application filed with Hon'ble NCLT Bench, Allahabad is being heard. The Commercial Lenders have also appointed two independent valuers for the valuation of the assets of the Holding Company.

Considering the steps initiated for achieving turnaround of the Company and sugar sector, and continuing manufacturing operation in near foreseeable future with improved operational efficiency, the financial results of Holding Company are continued to be presented on Going Concern basis, which contemplates realization of assets and settlement of liabilities, in the normal course of business. Accordingly, property, plant and equipment's are continued to be stated at carrying amount without testing for impain pending receipt of the final valuation reports from the two independent valuers appointed by the Commercial Lenders

As stated, aforesaid, the Holding Company has submitted comprehensive debt resolution proposals with all the lenders to commensura with its future cash flows including infusion of funds by strategic investor, promoters, internal accruals, monetization of assets etc which contemplates the total waiver of interest and concession in repayment of principal amount. Commercial lenders hav accepted the Earnest Money Deposit (EMD) offered in consonance with the Debt Resolution Proposal. Accordingly, the Interest expenses on credit facilities pertaining to commercial lenders, for the quarter ended June 30, 2023 amounting to Rs. 5,104.63 Lakh (previous quarter ended June 30,2022 amounting to Rs.4.663.48 Lakhs) has not been recognized in profit and loss account. As accumulated amount of Rs.94,052.66 Lakhs towards accrued interest has not been provided for in the books of accounts as on Jur 30. 2023

The Hon'ble High Court of Uttar Pradesh had directed the state government to determine the interest liability for the period of delayer payments of sugarcane price to cane growers for the sugar seasons 2012-13 to 2014-15 by the UP sugar industry. The Holding Company had received a notice for payment of interest on delayed payment of cane price for sugar season 2012-13, but considering the past practice of waiver/non-levying of any interest on account of delayed payment of cane price by the State Government, n provision towards the interest on delayed payment of cane price for the aforesaid and subsequent sugar seasons has been made in the accounts. Since, no demand notices have been raised on the Holding Company, except for sugar season 2012-13, the amount of interest on account of delayed payment of cane price not provided for in the accounts, could not be quantified

The auditors of Integrated Cashtech Consultants Private Limited ('ICCPL'), a subsidiary company have qualified its opinion on the financial statements for the year ended June 30, 2023 in respect of following matters:-

ICCPL had recognized revenue of Rs. 462.57 Lakhs as unbilled revenue in the earlier financial years, which had been in disput with the counter parties. Further the counter parties had also hold back the payment of Earnest Money Deposits of Rs. 100.00 Lakhs which has been shown as recoverable in the books. Pending final settlement of the disputes, the unbilled revenue and Earnest Mone Deposits balances are continued to be carried forward at the same amount, without making any provision for the expected cred losses and estimated probable losses on account of disputes. The auditors are not made available of appropriate impair assessment carried out by the management and accordingly, expressed their opinion that they are unable to comment on the same including the compliance of the Ind AS 36 and any consequential adjustment that may arise in this regard in the financial state

Trade receivables includes overdue receivables for more than one year amounting to Rs. 306.79 Lakhs, which has been classified as considered good and against which provision for expected credit loss of Rs. 93.39 Lakhs has been made. Examination of records of ICCPL revealed that the counter parties had not accepted the invoices raised by ICCPL on account of various disputes in fulfillmer of the contracts and are also not confirming that these payments are due to IPPCL as per their records. In absence of the confirmation and considering the fact of non admission of invoices, the auditor expressed their opinion that the entire receivable amount of Re 306.79 Lakhs should have been provided for by ICCPL

The recognition of net deferred tax assets of Rs. 149.46 Lakhs in respect of past losses and other deductible temporary difference is not in consonance with the Ind AS 12, as in the opinion of the auditors, the probability of earning sufficient taxable profits in future

is remote in view of the above mentioned qualifications In the audited financial statements of Simbahaoli Power Private Limited ('SPPL') for the year ended March 31, 2022, the statut auditor of the SPPL had qualified their opinion on the matter of certain accounting disputes with the holding company aggregating to Rs.1,197.90 Lakhs, resulting in understatement of loss after tax and overstatement of equity by the aforesaid amount. The audito further drawn Emphasis of Matter in respect of existence of material uncertainty on account of reduction in power tariff w.e.f. Apri 1, 2019, against which a writ petition has been filed by SSPL and others before High Court of Allahabad, Lucknow Bench; accounting of power supplied during the period April 1, 2019 to September 31, 2019 resulting in higher recognition of revenue by Rs. 683 Lakh having consequential impact on the profits and financial statements: and consequential impact on impairment on Property Plant ar Equipment, if any, on account of the aforesaid tariff reduction. The auditors had further drawn attention on the existence of materia uncertainty due to incurring of losses on account of reduction in power tariff having adverse impact on the liquidity of SPPL an reported that the aforesaid facts cast significant doubts about the SPPL's ability to continue as a going concern.

In the consolidated financial results of the Company for the Quarter ended 30 June, 2023 and other presented periods, the financial results of SPPL, a material subsidiary has not been consolidated, as the financial results of SPPL after financial year ending on Marc 31, 2022 have not been yet finalized and approved till date.

The transactions entered into between the Company and SPPL for the Quarter ended June 30, 2023, which have not been eliminated to the company and SPPL for the Quarter ended June 30, 2023, which have not been eliminated to the company and SPPL for the Quarter ended June 30, 2023, which have not been eliminated to the company and SPPL for the Quarter ended June 30, 2023, which have not been eliminated to the company and SPPL for the Quarter ended June 30, 2023, which have not been eliminated to the company and SPPL for the Quarter ended June 30, 2023, which have not been eliminated to the company and SPPL for the Quarter ended June 30, 2023, which have not been eliminated to the company and SPPL for the Quarter ended June 30, 2023, which have not been eliminated to the company and SPPL for the Quarter ended June 30, 2023, which have not been eliminated to the company and SPPL for the Quarter ended June 30, 2023, which have not been eliminated to the company and SPPL for the Quarter ended June 30, 2023, which have not been eliminated to the company and SPPL for the Quarter ended June 30, 2023, which have not been eliminated to the company and SPPL for the Quarter ended June 30, 2023, which have not been eliminated to the company and SPPL for the Quarter ended June 30, 2023, which have not been eliminated to the company and SPPL for the Quarter ended June 30, 2023, which have not been eliminated to the company and the in the consolidated financial results, have resulted in increase in the total revenue by Rs. 618.99 Lakhs and total expenses by Rs 245.86 Lakhs. Further, increase in the balances of subsidiary of Rs. 1,270.16 Lakhs as on 30 June, 2023 have been included in the consolidated balance sheet in the respective asset heads

The Board of Directors of the Holding Company has proposed the re-appointment of Ms. Gursimran Kaur Mann, as Managing Directors of the Company w.e.f. August 02, 2021 and Mr. Sachchida Nand Misra as Chief Operating Officer and Whole Time Director w.e. September 18, 2021 for a period of 2 years. The Holding Company has also approached the lenders for acceding consent for payme the remuneration to MD and COO & WTD. The Special Resolutions were passed at the 10th Annual General Meeting (AGM) hel on September 27, 2021. Lenders with majority share in outstanding debt have provided their consent to pay the remuneration to above named persons. The Holding Company is actively pursuing with other lenders for obtaining their consent, having belief that conse will be received in due course, and payment of remuneration has been made from the date of re-appointment, as stipulated by th majority of lenders led by the State Bank of India till June 30, 2023 amounting to Rs. 279.54 lakhs, including Rs 36,99 Lakhs for the quarter ended 30.06.2023

10 The standalone results are available on Company's website www.simbhaolisugars.com. The particulars in respect of standalo results are as under

		Quarter ended		
Particulars of standalone	30.06.2023	31.03.2023	30.06.2022	31.03.2023
Net Sales/Income from operations (Net)	26,649.46	36,191.61	29,956.57	121,186.03
Profit/(Loss) before tax	(1,030.17)	2,347.80	(1,651.79)	(3,138.36)
Profit/ (Loss) after tax	(1,030.17)	2,347.80	(1,651.79)	(3,138.36)
Other Comprehensive Income	-	(153.66)	-	(153.66)
Total Comprehensive Income	(1,030.17)	2,194.14	(1,651.79)	(3,292.02)
EBITDA	312.62	3,820.23	(219.59)	2,585.38

11 The obligation to supply molasses quantity under levy quota has been determined and accounted for in accordance with the Molasses Policy for the year 2022-23. However, the state excise department, on its own different interpretation of the said policy has determined higher quantities to be supplied under levy quota. Against which representations have been made to the State Government by the sugar industry, including the holding company. Pending settlement of the matter and in view of legal recourse available to the holding Company, no adjustment has been made in respect of the said higher levy quota in these financial results and the value of molasses supplied under levy quota over and above the quantity determined as per Policy has been treated as

12 The figures for the guarter ended March 31, 2023 are the balancing figures between the audited/restated figures of the full financia year and published unaudited year to date figures up to third quarter for the respective financial years, which were subjected to the

limited review by the auditors. 13 The above results were reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Compar at their respective meetings held on August 11th 2023.

Place: Simbhaoli (Hapur), India

For Simbhaoli Sugars Limite Gursimran Kaur Mann

Managing Director DIN: 00642094

स्थान : गुरुग्राम

तारीखः । 11 अगस्तः 2023



नीडो होम फाइनेंस लिमिटेड

(पूर्व में एडलवाइस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से ज्ञात) (नीडो), पंजीकृत कार्यालय स्थित: टॉवर ३,पांचवा तल, विंग 'बी', कोहिनूर सिटी मॉल, कोहिनूर सिटी , किरोल रोड, कुरला(वेस्ट), मुंबई—400 070 क्षेत्रिय कार्यालयः दूसरा तल, 3बी राजेंद्र पार्क, पूसा रोड, नई दिल्ली—110005

सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना

एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित उधारकर्ताओं ने नीडों से उनके द्वारा प्राप्त ऋण सुविधाओं के मूलधन और ब्याज के पुनर्मूगतान में चूक की है उक्त ऋण खातों को गैर निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। के लिए कहा गया था। उन्हें उनके अतिम पते पर वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुननिर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002(सरफैसी अधिनियम) की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना जारी की गई थी। उक्त मांग सूचना के अलावा, उन्हें इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सूचित किया गया है। उधारकर्ताओं , प्रतिभूतियों, बकाया देयों , धारा 13(2) के तहत भेजी गई मांग सूचना और वहां दावा की गई राशि का विवरण निम्न प्रकार है .—

* Edelweiss

1. उधारकर्ता, सह—उधारकर्ता, गारंटर का नाम और पता और ऋण राशि : श्रीमती रेणु दियालानी (उधारकर्ता) और श्री विनय कुमार भाटिया (सह—उधारकर्ता) मकान सं. 928 जिम खाना क्लब रोड सेक्टर–9, बरादुरगढ़, श्री श्याम इंटरप्राईसेस (सह—उधारकर्ता) प्लॉट सं. 683—डी, सैनी विहार, ग्राम मुंडका, पश्चिम दिल्ली – 11004 1 इसके अलावा : मकान सं. 2148, प्रकार –एमआईजी, सेक्टर–28, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी फरीदाबाद 121008 ऋण खाता सं. : LNDP0HL0000085911 और LNDP0HL0000085960 ऋण अनुबंध दिनांक : 30.01.2021 और

31.01.2021 **ऋण राशि : रुपये 86,00,000/**—(रुपये छियासी लाख मात्र) **और रु. 32,00,000/**—(रुपये बत्तीस लाख मात्र) **एनपीए दिनांक :** 29.03.2022 **मांग सूचना दिनांक :** 04.07.2023 **देय राशि : रुपये 93,51,143.82/**— (रुपये तैरानबे लाख इत्यावन हजार एक सौ तैरासी और बयासी पैसा मात्र) और **रुपये**

34,07,853.88/— (रुपये चौतीस लाख सात हजार आठ सौ तिरेपन और अड्डासी पैसा मात्र) संग मांग सूचना की दिनांक से भविष्य का

<u>प्रत्याभूत परिसंपत्ति का विवरण</u> : संपत्ति की अनुसूची धारक मकान सं. 2148, प्रकार एम.आई.जी, सेक्टर–28, हाउसिंग बोर्ड कॉलोर्न रुरीदाबाद 12 1008 का संपूर्ण व सर्वांगीण भाग **उक्त संपत्ति का सीमांकन प्रकार : उत्तर :** मकान सं 2 149, **दक्षिण :** मकान सं 2 147, **पूर्व**

नकान सं 2141. **पश्चिम** : सडक इसलिए आपको उपर्युक्त उधारकर्ता/ओं से इस सूचना के 60 दिनों के भीतर उपर्युक्त बकाय राशि का पूर्ण भूगतान करने के लिए कह जाता है, जिसमें विफल रहने पर अधोहस्ताक्षरी उपर्युक्त प्रतिभूतियों को प्रवर्तीत करने के लिए सरफैसी अधिनियम के तहत कारवाई करने के लिए बाध्य हो जाएगा। कृपया ध्यान दें ककी धारा 13(13) के अनुसार, आपको हमारी सहमति के बिना बिक्री, पट्टे या अन्यर्थों के माध्यम से उपर्युक्त प्रतिमृतियों को स्थानांतरित करने से रोका जाता है।

हस्ता/- प्राधिकृत अधिकार् दिनांक : 12.08.2023 प्रति, नीडों होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में एडलवाइस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से ज्ञात)

बजाज हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड

कार्पोरेट कार्यालय : सेरेब्रम आईटी पार्क बी-2 बिल्डिंग, 5वां तल, कल्याणी नगर, पुणे, महाराष्ट्र — 411014 शाखा कार्यालय : प्रथम तल, माइलस्टोन बिल्डिंग, सिटी यूनियन बैंक वोडाफोन आउटलेट के ऊपर, निकट माया बाजार, अजमेर ोड, किशनगढ़–305801 (राजस्थान) कब्जा सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की घारा 13 (4),
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(1), (परिशिष्ट-IV) के तहत
जबिक, अधोहस्ताक्षारी ने मैससं बजाज हाउसिंग फाइनेंस िनियेड (बीएचएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण
लाधा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित घारा 13 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियाँ
का प्रयोग करते हुए निम्नतिखित कर्जवार(शें) रसह कर्जवार(शें) रागंटर(शें) को नीधे दिए विवरण के अनुसार मांग सूचना(ऐ) जारी की थीं, जिनमें जनमें सूचना में
वर्णित बकाया राशि का भुगतान जक्त सूचना की प्रारित की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी। कर्जवार/रसह कर्जवार/रागंटर उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्वारा कर्जवार(पी) सह कर्जवार(पी), गारंटर(पी) और जनसाधारण के मुचना दी जाती है कि अधोहरताक्षरी ने मैससे बजाज हाउसिंग फाइनैस लिमिटेड की ओर से उक्त नियमावली के नियम 8(1) के साथ पठित उक्त अधिनियम की घारा 13 (4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। कर्जदार(राँ)/सह कर्जदार(राँ)/गारंटर(राँ) को विशेष रूप से तथा जनसाधारण को सामान्य रूप से इस संपत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है और संपत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार कर्जदारों पर बीएचएफएल की इसमें वर्णित राशि(याँ) तथा उस पर गवी ब्याज के प्रथम प्रभार के अधीन होगा।

कर्जदार(रों) / गारंटर(रों) का नाम (एलएएन नंबर, शाखा का नाम)	प्रत्याभूत आस्ति का वर्णन (अचल सम्पत्ति)	मांग सूचना तिथि और राशि	कब्जा की तिथि
शाखा : किशनगढ़	निम्न वर्णितानुसार गैर-कृषि भूमि सम्पत्ति के सभी	22 मई, 2023	07-08-2023
(एलएएन नंबर : H4Q5ECN0382493	अंश एवं खंड : ग्राम लाडरिया, क्षेत्रफल परिमाप 24.44 वर्ग	ক . 6,11,923 ∕ —	
तथा H4Q5FRL0332293)	गज, पंचायत समिति डीडवाना, जिला नागौर,	(रूपए छह लाख	
 शिवपाल वैष्णव (कर्जदार) 	राजस्थान—341517, पूरब : राम प्रताप अग्रवाल का मकान,	ग्यारह हजार	
 बंकटलाल वैष्णव (सह–कर्जदार) 	पश्चिम : निकाल और रास्ता, उत्तर : मोतीला, राम निवास	नौ सौ तेईस मात्र)	
3. मंगल चंद (सह–कर्जदार)	मोदी की दुकान, दक्षिण : रामबगार, हजारी मल का बाड़ा		
सभी का पता : 89. जैन मंदिर			

गडलिया तहसील डीडवाना जिला नागौर नागौर राजस्थान–341517 तिथि : 12-08-2023 स्थान : नागौर,

प्राधिकृत अधिकारी, बजाज हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड

विनायक वाणिज्य लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः फ्लैट नं. 28, स्टिल्ट फ्लोर, देविका टॉवर, 6, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 वेबसाइटः www.vinayakvanijya.com, फोनः 011-43675500, ईमेलः vvanijya1985@gmail.com सीआईएन: L52110DL1985PLC020109

30 जून, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए एकल अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सार (सेबी(एलओडीआर) विनियमावली, 2015 का विनियम 47(1)(बी)

विवरण	तिमाही समाप्त			वर्ष समाप्त
विवर्ग	30.06.2023	31.03.2023	30.06.2022	31.03.2023
	(अलेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)
कुल आय	2.31	2.32	3.08	11.15
अवधि के लिए शुद्ध लाम / (हानि) (कर, विशिष्ट और / या असाधारण मदों के पूर्व)	(5.30)	(1.32)	(2.00)	(3.86)
कर पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाम / (हानि) (विशिष्ट और / या असाधारण मदों के पश्चात)	(5.30)	(1.32)	(2.00)	(3.86)
कर पश्चात अवधि के लिए शुद्ध लाम ⁄ (हानि) (विशिष्ट और ⁄ या असाधारण मदों के पश्चात)	(5.30)	(0.28)	(2.00)	(2.82)
अवधि के लिए कुल समग्र आय [अवधि के लिए लाम / (हानि) (कर पश्चात) और अन्य समग्र आय (कर पश्चात) शामिल]	(5.30)	(0.28)	(2.00)	(2.82)
इक्विटी शेयर पूंजी	99.60	99.60	99.60	99.60
आरक्षित (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर) पूर्व वर्ष के लेखापरीक्षित तुलनपत्र में दर्शाए अनुसार)	-	-	-	102.55
प्रति शेयर अर्जन (रु. 10 / – प्रत्येक के)				
(चालू व बंद प्रचालनों के लिए) — 1. मूल 2. तरल	(0.55) (0.55)	(0.03) (0.03)	(0.21) (0.21)	(0.29) (0.29)

नोटः ऊपर सेबी (सचीबद्ध दायित्व और प्रकटन आवश्यकताएँ) नियमावली, 2015 के नियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों में पेश किए गए तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत रूप का सार है। तिमाही वित्तीय परिणामों का विस्तृत पूर्ण रूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइटः <u>www.bseindia.com</u> और कंपनी की वेबसाइट www.vinayakvanijya.com पर भी उपलब्ध है।

हिते. विनायक वाणिज्य लिमिटेड

(मुख्तार सिंह) (निदेशक बीआईएन: 0652580



दिनांकः 11.08.2023

स्थानः नई दिल्ली

विपुल लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : यूनिट नं. 201, सी-50, मालवीय नगर, दिल्ली-110017 कॉरपोरेट कार्यालय : विपुल टेकस्क्वायर, गोल्फ कोर्स रोड, सेक्टर-43, गुड़गाँव-122009 CIN No.: L65923DL2002PLC167607, दूरभाष सं : 0124-4065500, वेबसाइट : www.vipulgroup.in

वीडियो कांफ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो-वीडियो साधनों के माध्यम से आयोजित होने वाली 32वीं वार्षिक साधारण बैतक के संबंध में जानकारी

ज़ददारा सचना दी जाती है कि एजीएम की सचना में निर्धारित व्यवसायिक पहलओं पर चर्चा करने के लिए कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) तथा जसके अधी ्रपत्द्वार भूवमा दो गता है कि एजाएन को चूचमा में मधारत खर्बसावक महेचुजा पर चया करन के लिए कम्मा आवागनम, 2015 (आवागनम) तथा उसके अधान गिर्छत नियमों के साथ पवित कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एससीए) द्वारा जारी सायारण परिपन्न ने 1.4/2020 विनांक 8 अप्रैल, 2020, र्स. 17/2020 विनांक 13 अप्रैल, 2020, र्स. 20/2020 विनांक 5 मई, 2020, र्स. 20/2021 विनांक 13 जनवरी, 2021, र्स. 21/2021 विनांक 14 विसम्बर, 2021, र्स. 2/2022 विनांक 5 मई, 2022 विनांक 6 अप्रैस्त कहा गया है) के प्रावधानों के अनुमालन के अनुसार विपुल लिमिटेड (कंपनी) की 30वर्षी वार्षिक साधारण बैटक (एजीएम) श्रानिवार, 30 विरान्य, 2023 वोत्राचे वार्षेक साधानों (अवापना के अविद्या कंपने को उत्तर विनांक 15 जनवरी, 2021, सेवी/एवजो/सीएफडी/सीएसड सार्पका। (प्राणावी) स्वीश्वाईला/20/21/30 विनाक 12 महे, 20/20, स्वार्पका) सार्पका/सार्वाईला/यां ही। स्वीर्धका स्वार्पका स्वार्पका स्वार्पका हो। सार्वाद के स्वार्पका स्वार्पका हो। सार्वाद के स

प्राचवाना के जुतार क्षणना का उदया एजार नाता, करिया के जारेर सवाकत का जा रहा है, जिसके तर रेस स्वावाज स्वल पर स की आवरयकता नहीं है। सरस्याण सिर्फ वीसी/ओएवीएम के जरिए एजीएम में उपस्थित एवं मान ले सकते हैं। कैपनी अधिनियम, 2013 की घारा 103 के अधीन कोरम की गणना के उद्देश्य के लिए वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में शामिल होने वाले सदस्यों की गणना की जाएगी। सदस्यगण आगे यह ध्यान दें कि ऊपर उल्लेखित परिपत्रों के अनुसार तथा सरकार के हरियाली फैलाने के पहल के प्रोत्साहन के तहत 31वीं एजीएम की सचना तथा विर

वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक रिपोर्ट उन सदस्यों को सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप के माध्यम से भेजी जाएगी, जिनके ईमेल का पता कंपनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेटों के पार कंपुनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 तथा सूचीकरण विनियम के विनियम 44 के अनुसा

कपना आधानवम, 2013 का धारा 108 के साथ पाठत कपना (प्रवधन एव प्रशासन) । नवम, 2014 के 1नवम 20 तथा सुवाकरण विनयम क विनयम 44 के अनुसार एनएसडीएल ह्वारा प्रवत्त इनेवर्तृतिक विदेश प्रणाली ("सिता है-विटिंग) ह्वारा कंपनी अपने व्यवसाय के वित्य एक्सी एक्सी किए एजीएम सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर बोट डालने की सुविधा प्रदान की गई है तथा इन वेटिंग के जिए व्यवसायिक पहलुओं का निर्धारण किया जा सकता।
िरमोट ई-वोटिंग की अवधि मंगतवार, 26 सिताबर, 2023 को सुबह 9,00 बजे आरम्भ होगी एवं सुकबार, 29 सिताबर, 2023 को अपराहन 5,00 बजे समाप्त होगी।
उक्त विधि एवं तारीख के उपरांत रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं वी जाएगी। सबस्य द्वारा प्रस्ताव पर एक वास अपना वोट डाल दिए जाने के बाद उन्हें उसमें बदलाव करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। रिमोट ई-वोटिंग की अवधि के समाप्त होने पर संबंधित सेवा को बंद कर दिया जाएगा।

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के जरिए वोट डालने की सुविधा एजीएम के दौरान उपलब्ध रहेगी तथा वीसी/ओएवीएम के जरिए एजीएम में उपस्थित रहने वाले सदस्यों तथ

रिमोट ई-वोटिंग के जिए प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाला है तथा ऐसा करने के लिए उन पतावदी हो जाती है, वे एजीएम में ई-वोटिंग प्रणाली के जिए वोट डालने के पात्र होंगे। रिमोट ई-वोटिंग के जिए अपना वोट डाल चुके सदस्य एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं परंतु वे दोबारा वोट डालने के हकदार नहीं होंगे। सदस्यों का वोटाधिकार शनिवार, 23 सितम्बर, 2023 ("अंतिम तारीख") को कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनके द्वारा घारित इक्विटी शेयरों के समानुपात के आघार पर होगा। कोई भी व्यक्ति अंतिम तारीख को कंपनी का सदस्य बनते हैं वे रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम में वोटिंग के जरिए एजीएम सूचना में निर्धारित किए ग आधार पर होगा। कोइ मा ब्याक आतन ताराख का कपना का सदस्य बनत है व रिमाट इन्याटन अथवा एजाएम में वाटन के जारए एजाएम समी प्रस्तावों पर बोट डालने के योग्य होंगे। कोई भी व्यक्ति, जो एजीएम की सूचना भेजने के बाद कंपनी के शेयरों का अधिग्रहण कर कंपनी का सदस्य बनते हैं एवं अंतिम तारीख को शेयर धारण रखते हैं,

evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज कर लोंग इन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। तथापि, कोई व्यक्ति अगर रिमोट ई-वोटिंग के लिए पहले से ही एनएसडीएल के साथ पंजीकृत हैं, तो वे अपने वर्तमान यूजर आईडी एवं पासवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वे अपना पासवर्ड भूल गए हैं, तो वे www.evoting@nsdl.com पर उपलब्ध विकल्प 'फॉरगॉट यूजर डिटेल्स/पासर्वर्ड' का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वे अपना पासवर्ड भूल गए हैं, तो वे www.evoting@nsdl.com पर उपलब्ध विकल्प 'फॉरगॉट यूजर डिटेल्स/पासर्वर्ड' का इस्तेमाल कर अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं अथवा एनएसडीएल से नीचे उल्लेखित टोल फ्री से. 1800 1020 990 तथा 1800 22 44 30 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

रेमोट ई-वोटिंग की सुविधा के संबंध में किसी भी तरह के प्रश्न रहने पर कृपया **www. evoting@nsdl.com** के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध शेयरधारकों के लि ई-वोटिंग युजर मैनुअल तथा फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेशचन (एफएक्य) देखें अथवा एनएसडीएल की टोल फ्री नं. 1800 222 990 तथा 1800 22 44 30 पर सम्पर् करें अथवा voting@nsdl.co.in पर ईमेल करें।

कर अथ्या **voling@insu.co.in** पर इनल कर। इनेक्ट्रॉनिक साधमों द्वारा वेटिंग के संबंध में किसी भी तरह की शिकायत रहने पर सदस्यगण श्री श्रवण मंगला, महाप्रबंधक, टी-34, दूसरी मंजिल, ओखला इंडस्ट्रियल् एरिया, फेज-II, नई दिल्ली-110020 से ईमेल आईडीः info@masserv.com, दूरमाष सं.: 011-26387281-83 पर सम्पर्क कर सकते हैं अथवा कंपनी सचिव कं secretarial@vipulgroup.in पर इंगेल भेज सकते हैं। एतद्द्वारा पुनः सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 तथा सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं तथा प्रकटीकरण जरूरत) विनियमन, 2015 के विनियम

42 के प्रावधानों के अनुपालन के तहत एजीएम के उद्देश्य हेत् सदस्यों के रजिस्टर एवं कंपमी की अंतरण पुस्तिका शनिवार. 23 सितम्बर. 2023 से शनिवार. 30 सितम्बर 2023 तक (दोनों दिन सहित) बंद रहेगी। 2023 तक (दाना दिन सहित) बंद रहमा। सभी सदस्यों अपने ई-मेल एड्रेस कंपनी के पास पंजीकृत कराने का अनुरोध किया जाता है। हरित पहल के समर्थन में कंपनी आपको वार्षिक प्रतिवेदन तथा अन्य प्रासंगिक जानकारी तथा दस्तावेज आपके पंजीकृत ई-मेल पते पर मेजेगी। ई-मेल एड्रेस का पंजीयन कंपनी एवं मूल्यवान हिस्सेदार के रूप में आपके के साथ बेहतर तरीके से संचार करने में सहायक साबित होंगी, तथा संचार पर होने वाले व्यय में भी कटौती होगी तथा सबसे महत्वपूर्ण है कि कागज के इस्तेमाल में कटौती से पर्यावरण की सुरक्षा होगी। ई-मेल एड्रेस के पंजीयन के लिए कृपया अपना व्यार secretarial@vipulgroup.in अथवा mas_serv@yahoo.com पर फेंगे। जिन सदस्यों के पुगत मीतिक व्वरूप में शेयर धारण है अथवा जिन्होंने कंपनी के साथ अपने ईमेल पता का पंजीयन नहीं कराया है वे रिमोट ई-वोटिंग के जरिए अपना

वाट डाल सकते हैं अथवा एजीएन की सुचना में यथा प्रदत्त प्रारूप में बैठक के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के वरिए अपना वोट डाल सकते हैं। सदस्यगण ध्यान दें कि रिमोट ई-वोटिंग/एजीएम के दौरान ई-वोटिंग हेतु विस्तृत प्रक्रिया का उल्लेख एजीएम में किया गया है। एजीएम की सुचना तथा वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.vipulgroup.in , स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट, जाई कंपनी के ग्रेयर सूचीबढ़ हैं भगी बीएसई लिम्टिड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंजों और इंडिया लिम्टिड यानी www.bseindia.com तथा www.nseindia.com तथा नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिम्टिड की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com

ऊपर उल्लेखित संचना कंपनी के सभी सदस्यों की जानकारी तथा लाभ के लिए जारी किया जा रहा है तथा समय-समय पर जारी एमसीए परिपत्रों तथा सेबी परिपत्र

कृते विपूल लिमिटेड सुनील कुमार कंपनी सचिव



हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड सीआईएन : U74899DL1991PLC046774 पंजीकृत कार्यालय : 34, सामुदायिक केन्द्र, बसंत लोक, वसंत विषय, नई दिल्ली–110057 दूरमाब : 011–4948 7180, फैक्स : 011–4948 7197, 011–4948 7198 इंग्ल : litigation@herofincorp.com, वेबसाइट : www.herofincorp.com

अधिग्रहण सूचना [(परिशिष्ट IV) नियम 8(1)] जबकि, **हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड (एचएफसीएल),** एक गैर—बैंकिंग वित्तीय कंपनी, के प्राधिकत अधिकारी वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (200 का 54) (यहां इसमें इसके उपरांत **"अधिनियम"** के रूप में संदर्भित) के प्रावधानों के अंतर्गत और प्रतिभा हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत प्रद

राक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, एक मांग सूचना दिनांकित 15—05—2023 निर्गत की थी, जिसमें निम्न— . **मैसर्स हनी ट्रेडिंग कंपनी (जधारकर्ता),** जिसका पंजीकृत कार्यालय 6 इन. 1524/28 नाईवाला करो बाग, मध्य दिल्ली-110005 में स्थित है, जिसका अन्य पता यह है : मकान नं. 257, दुरियायी कचेरा

वरसाबाद दादरी, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश — 2033207 2. **श्री प्रदीप कुमार शर्मा (गारंटर)**, निवासी : मकान नं. 257, दुरियायी कचेरा, वरसाबाद दादरी, गौतम बुद्ध नगर जत्तर प्रदेश — २०३३२०७

. **श्री आदेश कुमार (गारंटर),** निवासी : मकान नं. 257, दुरियायी कचेरा, वरसाबाद दादरी, गौतम बुद्ध नगर

.को **11–05–2023** के अनुसार देय–भुग्तेय, सूचना में अंकित राशि **रु. 31,66,526.69 (रुपये इकतीस ला छेयासठ हजार पांच सौ छब्बीस एवं उनहत्तर पैसे मात्र)** का यथा लागू ब्याज और अन्य शुल्कों के साथ ाध्यास हजार पांच सा छब्बास एवं व उनहरार पस भात्र) का यथा लागू व्याज और अन्य शुरका के साथ उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से साठ (कि) दिवसों के अंदर प्रतिनुगतान करने को कहा गया था। उधारकर्ता राशि का प्रतिनृगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्वारा उधारकर्ता तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित सम्पत्ति का प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 6 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप—धारा (4) के अंतर्गत प्रवर्षा गुण्याने वा विद्यार्थ के ताचन कर ताचन का जात किया के पान का किया है। उन्हें प्रवर्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, **09 अगस्त 2023** को अधिग्रहण कर लिया है। उधारकर्ता के विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतदहारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है वि

वल सम्पत्ति का लेन–देन न करें तथा चल सम्पत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन 11-05-2023 के अनुसार देय-मुग्तेय रु. 31,66,526.69 (रुपये इकतीस लाख छियासठ हजार पांच सौ छबीस एवं उनहत्त्तर पैसे मात्र) की एक राशि यथा लागू व्याज और अन्य शुल्कों हेतु एचएफसीएल के

नाराजान होना। धारकर्ता का ध्यानाकर्षण प्रतिभूत परिसम्पत्ति के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धार

13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अथल सपात्त / प्रातमूत पारसपात्त का विवरण निम्नानुसार ह :						
क्र. सं.	मशीनरी विवरण	आपूर्तिकर्ता का नाम	प्रमात्रा			
1.	हॉट मोल्डिंग हाइड्रौलिक प्रेस 250 टन्स	कलसन हाइड्रौमेटिक मशीन टूल्स	1			
2	ऑटोमेटिक पैड ग्राइंडिंग मशीन	कलसन हाइड्रौमेटिक मशीन टूल्स	1			
3.	स्मॉल डस्ट कलेक्टर	कलसन हाइड्रौमेटिक मशीन टूल्स	1			
स्थान : दिल्ली राराक्षे हस्ता./— प्राधिकृत अधिकारी, दिनांक : 08–08–2023 हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड						

रेलिगेयर हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड

दिनों के भीतर करने को कहा गया था।

RELIGARE I HOME

<mark>जीकृत कार्यालय :</mark> 1407, 14यां तल, चिरणजीव टॉवर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली–110019 पॅपो**रेट कार्यालय:** 8वां तल, मैक्स हाउस, ब्लॉक ए, डॉ झा मार्ग, ओखला फैज 3, ओखला औद्योगिक क्षेत्र नई ल्ली 110020, **CIN No** : U74899DL1993PLC054259, **वेबसाइट :** www.religarehomesloans

कब्जा सुचना ((परिशिष्ट-1V) नियम 8(3)।

जबिक रेलिगेयर हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (भारतीय रिजर्व बैंक के साथ विधिवत पंजीकृच) के प्राधिकृत अधिकारी वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 के 54) (इसके बाद ''सरफैसी अधिनियम, 2002'' से संदर्भित) जिसका पंजीकृत कार्यालय:1407, 14वां तल, चिरणजीव टॉवर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली—110019 (इसके बाद ''आर**एडीएफसीएल'** 'से संदर्भित)और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 वे साथ पठित धारा 13(12) के अंतरगत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 21.05.2021 को **1. सुमित कुमार पुत्र विरन सिंह** म.सं. 105, प्राण गरी, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश— 20100 **इसके अलावा :** मकान सं. 623(684/57), पुराना मकान सं. 542 में से, मालीवाड़ा . गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, **इसके अलावा :** दुकान सं. 60–61, घंटा घर, सब्जी मण्डी गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश –201001 **2. धीर सिंह** म.सं. 105, प्राण गरी, गाजियाबाद उत्त प्रदेश— 201001 **इसके अलावा :** मकान सं. 623(684/57), पुराना मकान सं. 542 में से_. मालीवाड़ा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, **इसके अलावा :** दुकान सं. 60–61, घंटा घर, सब्जी मण्डी गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश –201001 को एक मांग सूचना जारी कर सूचना में उल्लेखित राशि रुपये 12,97,015.33/— (रूपये बाराह लाख सत्तानबे हजार पद्राह और तैतीस पैसा मात्र)

'उधारकर्ता/गारंटर राशि चुकाने में असफल रहा है, एतद् द्वारा उधारकर्ता और सामान्य रूप से सर्व—सामान्य को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने अधिनियम की धारा 13 की उप — धारा (4) के सहितत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में इस **अगस्त के 10वें दिन, 2023** पर निम्न वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है।

का भुगतान **दिनांक 21.05.2021** तक ब्याज के साथ उक्त सूचना प्राप्त होने की दिनांक से 6

विशेष रूप से उधारकर्ता और सामान्य रूप से सर्व—सामान्य को एतद् द्वारा आगाह किया जाता है कि संपत्ति के साथ कोई व्यवहार नहीं करें और संपत्ति के साथ कोई भी व्यवहार 12,97,015.33/— (रूपये बाराह लाख सत्तानबे हजार पंद्राह और तैंतीस पैसा मात्र) की राशि के लिए और उसे पर **दिनांक 21.05.2021** से ब्याज अन्य शुल्कों के साध **'आरएडीएफर्सीएल''** के प्रभार के अधीन होगा। उधारकर्ता का ध्यान प्रत्याभृत परिसंपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध

अधिनियम की धारा 13 के उप—अनुभाग (8) के प्रावधानों पर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्तियों का विवरण निम्न प्रकार:-'फ्री होल्ड आवासीय मकान सं. 623(684/57), आधा हिस्सा उत्तरी ओर 50 गज

4 1.8 1 वर्ग मीटर मापन क्षेत्र 100 वर्ग गज में से, आदा, हिस्सा उत्तरी ओर स्थित मालीवाड़ा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश कास का संपूर्ण व सर्वांगीण भाग और सीमांकन: पूर्व: श्री छीड़ा का मकान, पश्चिम: 4 फुट चौड़ी गली, उत्तर: श्री गाजे सिंह का मकान, दक्षिण: अन्य संपत्ति''

हस्ता / 🗕 पाधिकत अधिका स्थान : गाजियाबाद दिनांक : 10.08.2023 मैसर्स रेलिगेयर हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड

Carrier

कैरियर एयरकंडीशनिंग एंड रेफ्रीजरेशन लि.

सीआईएनः U74999HR1992FLC036104 पंजीकृत कार्यालयः नरसिंहपुर, खेरकी दौला पोस्ट, गुडगाँव 122 001, हरियाणा (भारत) फोनः +91-124-4825500; फैक्सः +91-124-2372230 वेबसाइटः www.carrierindia.com, ईमेलः secretarial@carrier.com

31वीं वार्षिक आम बैठक से सम्बन्धित सूचना

एतत्द्वारा सूचना दी जाती है कि कैरियर एयरकंडीशनिंग एंड रैफ्रिजरेशन लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की 31वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") शुक्रवार, 8 सितंबर, 2023 को दोपहर 12:00 बजे आईएसटी (भारतीय मानक समय) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") अन्य ऑिंडयो विजुअल माध्यमों ("<mark>ओएवीएम")</mark> के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 201 ("**अधिनियम**") के सभी लागू प्रावधानों और सामान्य परिपत्र संख्या के साथ पढ़े गए नियम अनुपालन में 14 / 2020, 17 / 2020, 20 / 2020 और 10 / 2022 दिनांक 8 अप्रैल 2020 13 अप्रैल 2020, 5 मई 2020 और 28 दिसंबर 2022 और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा जारी अन्य लागू परिपन्न ("परिपन्न") एजीएम बुलाने वाले नोटिस मे नेर्धापित व्यवसार्यों को जेन-देन करने के जिए आगोजित की जागेगी। बीची / भोगवीगम व माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गिना जाएगा।

ुमसीए के उक्त परिपत्रों के अनुपालन में, एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2023 की वार्षिक रिपोर्ट जिसमें वित्तीय विवरण, बोर्ड की रिपोर्ट, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट और इसके साथ संलग्न होने के लिए अन्य आवश्यक दस्तावेज शामिल हैं, केवल उन सभी सदस्यों को ई-मेल द्वारा भेजी जा रही है जिनके ई-मेल कंपनी या डिपोजिटरी प्रतिभागियों के साध पंजीकृत है। उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.carrier.com/building solutions/en/in/investor/ और सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसज (इंडिया) लिमिटे (सीडीएसएल) की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध होंगे।

ई-मेल रजिस्टर / अपडेट करने का तरीका: . भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य जिनके ई—मेल कंपनी और / या कंपनी के रजिस्ट्रार व शेयर हस्तांतरण एजेंट के साथ पंजीकृत/अपडेट नहीं हैं, वे अपने ई-मेत पंजीकृत अपडेट करा सकते हैं secretarial@carrier.com पर कंपनी और /या admin@mcsregistrars.com पर कंपनी के रजिस्ट्रार व शेयर हस्तांतरण एजेंट को ई-मेल भेजकर, निम्न दस्तावेजों की स्कैनड प्रति भेजकर वीसी/ओएवीएम सुविधा द्वार

एजीएम की सचना प्राप्त कर सकते हैं। अपना नाम, फोलियो नंबर व पता वर्णित करते हुए एक हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र

पैन कार्ड की स्व – सत्यापित प्रति iii) सदस्य के पते के लिए किसी दस्तावेज (आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, चुनाव पहचार

कार्ड, पासपोर्ट) की स्व-सत्यापित गैर भौतिक मोड में शेयर रखने वाले सदस्य जिनके ई-मेल डिपोजिटरी प्रतिभागियों के साथ रजिस्टर/अपडेट नहीं हैं, वे अपने डिपोजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपने ई–मेल रजिस्टर / अपडेट करा सकते हैं। आपको www.carrier.com/buildingsolutions em/in/investors/ पर प्रक्रिया की जांच करने और भौतिक शेयरों को डीमैंटरियलाइज

शेयरों में बदलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ई-वोटिंग द्वारा वोट डालने का तरीकाः

कंपनी अपने सभी सदस्यों को एजीएम के नोटिस में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर वोट डालन के लिए रिमोट ई—वोटिंग सुविधा ("रिमोट ई—वोटिंग") प्रदान कर रही है। कंपनी एजीएग में ई—वोटिंग सिस्टम ("एजीएम में ई—वोटिंग") की सुविधा भी प्रदान कर रही है। एजीए की सूचना में रिमोट ई—वोटिंग, एजीएम में ई—वोटिंग और भौतिक मोड में शेयर रखने वार् सदस्यों और जिन सदस्यों ने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है, सहित सभी सदस्य द्वारा वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भागीदारी की विस्तृत प्रक्रिया प्रदान की

सदस्य, एजीएम के दौरान ई-वोटिंग, रिमोट ई-वोटिंग के लिए एजीएम की सचना टिप्पणियों में दिए गए निर्देशों को अपनाकर लॉग-इन क्रेडेंशियल जनरेट कर सकते हैं लॉग–इन क्रेडेशियल वीसी / ओएवीएम के द्वारा एजीएम में भाग लेने के लिए उपयोग कि

वीसी/ओएवीएम के द्वारा एजीएम से जुड़ने की प्रक्रिया, रिमोट ई-वोटिंग व एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सूचना के लिए एजीएम की नोटिस के टिप्पणियों में दिय गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। किसी भी सहायता के लिए कृपया कंपनी के सचिव विभाग, कैरियर एयरकंडीशनिंग एंड रेफ्रीजरेशन लिमिटेड, खेरकी दौला पोस्ट, नरसिंहपुर, गुुरुग्राम, हरियाण 122001 ई-मेलः **secretarial@carrier.com** और / या कंपनी के रिजस्ट्रार व शेयर हस्तांतरण एजेंट एमसीएस शेयर हस्तांतरण एजेंट लि. एफ–65, पहली मंजिल, ओखल इंडस्टियल एरिया फेज –1. नई दिल्ली – 110020. ई–मेल admin@mcsregistrars.com को लिख सकते हैं। सदस्यों को कंपनी / कंपनी के रजिस्ट्रार व शेयर हस्तांतरण एजेंट व साथ सभी संचार में फोलियो नंबर लिखना आवश्यक है।

कैरियर एयरकंडीशनिंग एंड रेफ्रीजरेशन लिमिटेड

हस्ता. / अनुराग गुप्ता कंपनी सचिव

थानः गुरूग्राम दिनांकः ¹2.08.2023

एम न. A43500